

विषय-सूची		
विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन	--	v
विहंगावलोकन	--	vii-xvi
भाग-I: वित्त एवं राजस्व विभाग		
अध्याय-I		
सामान्य		
परिचय	1.1	1
प्राप्तियों का रूझान	1.2	1-7
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.3	7-9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन-सारांशीकृत स्थिति	1.4	9-11
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.5	11-12
लेखापरीक्षा का परिणाम	1.6	12-13
इस प्रतिवेदन के अध्याय-II का आच्छादन	1.7	13
अध्याय-II		
वित्त एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
वित्त विभाग		
‘उत्तर प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस) के कार्यान्वयन पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा’ से सम्बन्धित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.1	15-61
स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग		
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के उल्लंघन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	2.2	62-64
परिवहन विभाग		
वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराया जाना	2.3	64-66
पंजीकृत वाहनों के वैधता समाप्त परमिट पर कार्यवाही करने में विफलता	2.4	66-67
जेएनएनयूआरएम बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना	2.5	67-68

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड का आरोपण न किया जाना	2.6	68-70
राज्य आबकारी विभाग		
क्यूआर कोड की धनराशि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज आरोपित न किया जाना	2.7	70-71
भाग-II: आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)		
अध्याय-III		
आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप		
प्रस्तावना	3.1	73
विभागों और प्राधिकरणों की रूपरेखा	3.2	73-74
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	3.3	74
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	3.4	74-75
निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर)	3.4.1	75
अनुपालन लेखापरीक्षा	3.4.2	75
अप्राप्त उत्तर	3.5.1	75-76
लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	3.5.2	76-77
संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति	3.6	77
संस्थाओं के लेखाओं के प्रेक्षण एवं अन्तिमीकरण में बकाया	3.6.1	77-78
राज्य विधानमण्डल में संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं को रखे जाने की स्थिति	3.6.2	78-79
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियां	3.7	80
अध्याय-IV		
विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
पर्यटन विभाग		
पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	4.1	81-116

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
लोक निर्माण विभाग		
त्रुटिपूर्ण प्रारंभिक यातायात भार गणना के कारण अधिक क्रस्ट ओवरले के कारण से ₹ 1.44 करोड़ का परिहार्य व्यय	4.2	117-119
परिशिष्टियाँ		121-191
शब्द-संक्षेप सूची		193-195

